

# कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम म.प्र.

क्रमांक / 509 / चि.महा.र. / 2018

रतलाम, दिनांक 18 / 07 / 2018

सह - प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक / प्रदर्शक-ट्यूटर पद हेतु साक्षात्कार सूचना

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम के विज्ञप्ति क्रमांक/295 / स्थापना/ विज्ञप्ति/ 2018 दिनांक 13/06/18 के अनुक्रम में म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत समस्त सह - प्राध्यापक / सहायक प्राध्यापक / प्रदर्शक-ट्यूटर वर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार निम्नलिखित संलग्न सूची एवं समय सारणी अनुसार संपन्न होगा:-

**For Co-ordination please Contact: Dr. Mohit Kulmi - 9425746716**

क्रमांक	दिनांक	समय एवं स्थान	संपन्न होने वाली कार्यवाही
1	23/07/2018	प्रातः 12:00 से दोपहर 3:00 बजे तक सूक्ष्म परीक्षण स्थान :- सामुदायिक चिकित्सा शिक्षा विभाग (PSM Block), महात्मा गाँधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर म. प्र	*अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज / प्रमाण-पत्र का सूक्ष्म परीक्षण / सत्यापन <b>Subjects:-</b> PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY GENERAL MEDICINE PEDIATRICS ANAESTHESIA OBSTRETICS & GYNAECOLOGY ORTHOPEDICS
2	24/07/2018	प्रातः 11:30 से उपरांत साक्षात्कार का स्थान :- कमिश्नर ऑफिस कोठी रोड़ विक्रम युनिवर्सिटी उज्जैन म. प्र. . 456010	*अभ्यर्थियों का साक्षात्कार (संलग्न विषयवार एवं सूची अनुसार ) <b>Subjects:-</b> PHYSIOLOGY BIOCHEMISTRY GENERAL MEDICINE PEDIATRICS ANAESTHESIA OBSTRETICS & GYNAECOLOGY ORTHOPEDICS

नोट:- साक्षात्कार हेतु आमंत्रित समस्त अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित मूल दस्तावेज आवश्यक रूप से साथ लावें। किसी भी मूल दस्तावेज के न प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु अपात्र घोषित किया जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों का चयन पश्चात् उसी दिन अपनी उपस्थिति संस्था का देनी होगी, अन्यथा उनका चयन निरस्त किया जावेगा।

1. आधार कार्ड फोटो परिचय पत्र।
2. जन्मतिथि हेतु दसवीं कक्षा की अंकसूची/हाई स्कूल की अंकसूची/प्रमाण-पत्र। इसके अलावा कोई अन्य प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं होगा।
3. एम.बी.बी.एस./स्नातक परीक्षा की समस्त अंकसूचियाँ।
4. एम.बी.बी.एस./स्नातक उपाधि।
5. एम.बी.बी.एस. अटेम्प्ट सर्टिफिकेट।
6. एम.बी.बी.एस. पंजीयन प्रमाण-पत्र।
7. एम.डी./एम.एस./पी.एच.डी./स्नातकोत्तर उपाधि, अंकसूची एवं पंजीयन प्रमाण-पत्र।
8. अनुभव प्रमाण-पत्र।
9. शोध-पत्र प्रकाशन की प्रतियाँ।
10. मध्यप्रदेश का मूलनिवासी प्रमाण-पत्र अगर लागू हो तो।
11. जाति प्रमाण-पत्र अगर लागू हो तो।

12- अभ्यर्थी अपने साथ GMC RATLAM की वेब साईट <http://www.medicaleducation.mp.gov.in/>

<http://www.mgmmcindore.in/> अथवा [www.gmcratlam.org/](http://www.gmcratlam.org/) पर उपलब्ध **ANNEXURES 1,2,3,4,5** को निर्धारित प्रपत्र में भरकर लाये

विशेष नोट-

1. अभ्यर्थी को उपर्युक्त वर्णित साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता अथवा अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
2. आपके आवेदन का साक्षात्कार हेतु चयन वर्तमान में अंतिम रूप से किया गया है यदि आपकी शैक्षणिक अनुभव अथवा अन्य कोई भी पद के लिये वांछित योग्यता विज्ञापन में दिए गए तथा एमसीआई-टीईक्यू के मानदण्डों के अनुसार नहीं पाई गई तो आपका साक्षात्कार हेतु चयन निरस्त माना जाएगा।
3. आपसे अपेक्षित है कि आप संपूर्ण उत्तरदायित्व के साथ एक स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र दें जिससे स्पष्ट उल्लेखित हो कि आप वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2017-2018 में एमसीआई के स्नातक/स्नातकोत्तर/या किसी अन्य निरीक्षण में किस दिनांक को तथा किस शैक्षणिक पद के लिये उपस्थित हुए अथवा नहीं हुए थे।

अधिष्ठाता  
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,  
रतलाम (म.प्र.)

**SHORTLISTED CANDIDATES FOR THE POST OF ASSOCIATE PROFESSOR/ ASSISTANT  
PROFESSOR/ DEMONSTRATOR FOR PHASE-3 OF INTERVIEW**

**DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY/ BIOCHEMISTRY  
DEMONSTRATOR (ST-01)**

<b>S.NO</b>	<b>NAME</b>
1	Dr. AMIT KUMAR AJNAR
2	Dr. NEETA DAMOR
3	Dr. DWARKA PRASAD GOTHARE
4	Dr. RAJU KANESH

**DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY  
ASSISTANT PROFESSOR (UR-01)**

<b>S.NO</b>	<b>NAME</b>
1	Dr. FURQUAN ALAM
2	Dr. MADHAV S. KADAM
3	Dr. DHARAMVEER SINGH MAHOR
4	Dr. RAJU TIWARI
5	Dr. KHUSHBOO SONI

**DEPARTMENT OF MEDICINE  
ASSOCIATE PROFESSOR (UR-02)**

<b>S.NO</b>	<b>NAME</b>
1	Dr. HIMANSHU MATHUR

**DEPARTMENT OF PEDIATRICS  
ASSISTANT PROFESSOR (UR-02)**

<b>S.NO</b>	<b>NAME</b>
1	Dr. AMIT SHANDALIYA
2	Dr. NAIKEY MINAREY

**DEPARTMENT OF PEDIATRICS  
ASSISTANT PROFESSOR (ST-01)**

<b>S.NO</b>	<b>NAME</b>
1	Dr. DEVENDRA NARGAWE

**DEPARTMENT OF OBSTERICS & GYNAECOLOGY  
ASSISTANT PROFESSOR (UR-01)**

S.NO	NAME
1	Dr. VAISHALI JAIN

**DEPARTMENT OF OBSTERICS & GYNAECOLOGY  
ASSISTANT PROFESSOR (ST-01)**

S.NO	NAME
1	Dr. SARIKA RAWAT

**DEPARTMENT OF ANAESTHESIA  
ASSISTANT PROFESSOR (UR-01)**

S.NO	NAME
1	Dr. ANIL KUMAR RATNAWAT

**DEPARTMENT OF ANAESTHESIA  
ASSISTANT PROFESSOR (ST-01)**

S.NO	NAME
1	Dr. GIRIRAJ BHURRA

**DEPARTMENT OF ORTHOPAEDICS  
ASSOCIATE PROFESSOR (UR-01)**

S.NO	NAME
1	Dr. SAURABH JAIN